



# INDIAN SCHOOL SALALAH

SECOND TERM EXAMINATION – FEBRUARY – MARCH 2023



Class : VII

HINDI 3<sup>rd</sup> LANGUAGE

Time : 3 Hrs.

(कुल प्रश्न-14 कुल पृष्ठ - 10)

Maximum Marks:80

Roll No: (In numerals) .....

(In words) .....

Name of the Candidate: .....

Section: .....

Day and Date of Examination: .....

Signature of the Candidate: .....

Signature of the Invigilator: .....

## STATEMENT OF MARKS

Section A	
Section B	
Section C	
Section D	
Grand Total	

Signature of the Examiner with date: .....

Signature of the Checker with date: .....

(खण्ड-क)

01. लिंग बदलिए:- 5x1=5
- i) चाचा - ..... ii) नाना - .....
- iii) विद्वान - ..... iv) बेटा - .....
- v) बैल - .....
02. वचन बदलिए:- 5x1=5
- i) लहर - ..... ii) झील - .....
- iii) किरण - ..... iv) परी - .....
- v) डाल - .....
03. दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए:- 10x½=5
- i) पत्ता - ....., .....
- ii) पानी - ....., .....
- iii) सदा - ....., .....
- iv) हवा - ....., .....
- v) गाँव - ....., .....
04. विलोम शब्द लिखिए- 5x1=5
- i) न्याय x ..... ii) आदर x .....
- iii) उपयोगी x ..... iv) साधारण x .....
- v) अमृत x .....

05. अंग्रेज़ी अर्थ लिखिए:-

5x1=5

i) शिकारी - .....

ii) अनुरोध - .....

iii) व्यस्त - .....

iv) उपजाऊ - .....

v) निद्रा - .....

06. हिंदी में अनुवाद कीजिए:-

5x1=5

i) I will go to my friend's house tomorrow.

.....

ii) Ashok will bring toys.

.....

iii) Children will play in the ground.

.....

iv) Meera will buy flowers.

.....

v) I will eat food.

.....

07. अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए:-

5x1=5

i) लक्ष्मी बाज़ार जाएगी।

.....

ii) अमित क्रिकेट खेलेगा।

.....

iii) लता गीत गाएगी।

.....

iv) हम मामाजी के घर जाएँगे।

.....

v) मैं टी.वी देखूँगा।

.....

08. का-के-की का सही प्रयोग कीजिए:-

5x1=5

i) मीना ..... दो बेटियाँ हैं।

ii) यह श्याम ..... घोड़ा है।

iii) रवि ..... दादाजी केरल में रहते हैं।

iv) जीवन ..... मित्र सोहन है।

v) जतिन ..... बहन डॉक्टर है।

09. उचित विशेषण शब्दों से वाक्यों की पूर्ति कीजिए:-

5x1=5

(गरम, सुंदर, एक किलो, बुद्धिमान, चार)

i) कमरे में ..... बच्चे हैं।

ii) ..... अंगूर ले आओ।

iii) भरत ..... छात्र है।

iv) यह गुलाब ..... है।

v) गिलास में ..... पानी है।

10. समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए मित्र को पत्र लिखिए।

5

अथवा (OR)

विद्यालय में कैंटिन खुलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



बाद व्यक्ति का दिमाग यह बता नहीं पाता कि उसने क्या खाया और नतीजा यह होता है कि व्यक्ति खाता चला जाता है। यह बात साफ़ हो चुकी है कि जंकफूड आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए जंकफूड छोड़कर फल, सब्ज़ी, दाल, दूध आदि पौष्टिक आहार खाना चाहिए।

क) आजकल बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं?

i) रोटी            ii) चावल            iii) जंकफूड

ख) जंकफूड खाने से शरीर कैसा हो जाता है?

i) अच्छा    ii) मोटा    iii) स्वस्थ

ग) जंकफूड खाने वाला व्यक्ति अधिक क्यों खाता है?

i) उसका दिमाग बता नहीं पाता कि उसने क्या खाया

ii) उसे जंकफूड ही अच्छा लगता है

iii) जंकफूड का स्वाद अधिक है

घ) भूख को नियंत्रित करने वाला रसायन किस भोजन में पाया जाता है?

i) पौष्टिक            ii) उबला            iii) तला-बुना

ड) ..... खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं।

i) जंकफूड            ii) फल-सब्ज़ी            iii) पौष्टिक आहार

13. निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए:-

4x2=8

क) परी किस पर सवार होकर उतर रही है?

.....  
.....

ख) केरल के लोग हमेशा अपने साथ छाता क्यों रखते हैं?

.....

.....

ग) पानी को अमृत क्यों कहा गया है?

.....

.....

घ) कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया?

.....

.....

14. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:-

4x3=12

क) गोबर गैस संयंत्र लगवाने से क्या लाभ है?

.....

.....

.....

ख) जल व्यर्थ न हो - इसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए?

.....

.....

.....



ग) ओमना को किस बात पर गर्व है?

.....

.....

.....

घ) बालक सपने में परियों को क्या करते देखता है?

.....

.....

.....